

Printed from

# नवभारत टाइम्स

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

## पुराने से बड़ा होगा आपका नया शहर

21 Jan 2011, 0230 hrs IST

नगर संवाददाता ॥ गाजियाबाद

गाजियाबाद में एक नया शहर बनेगा, पुराने शहर से भी बड़ा होगा। नया शहर 7400 एकड़ जमीन में फैला होगा। सरकार ने जिन कंपनियों को शहर बसाने के लिए लाइसेंस दिया है, उनकी ओर से कई सौ एकड़ जमीन खरीद ली गई है। नए शहर में करीब नौ लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। एक कंपनी ने करीब 500 एकड़ जमीन में सिटी विकसित करने के लिए नक्शा भी पास करा लिया है। फर्स्ट फेज में करीब डेढ़ लाख लोगों आवास की सुविधा दी जाएगी।

नया शहर एनएच -9 के किनारे से बसना शुरू हो रहा है। नए शहर के लिए महरौली, बम्हेटा, शहवाजपुर, सादिकनगर, दुरियाई, दुजाना, काजीपुरा, डासना आदि करीब एक दर्जन से ज्यादा गांवों की जमीन खरीदी जा रही है। जीडीए के भू अर्जन विभाग के अधिकारी और संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के मुताबिक हाईटेक सिटी के लिए दो कंपनियों को प्रदेश सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। फर्स्ट फेज में जीडीए ने दोनों कंपनियों को 1500-1500 एकड़ जमीन में सिटी बसाने के लिए लाइसेंस जारी किया था। अब इसमें एक कंपनी को प्रदेश सरकार ने और 2200 एकड़ जमीन खरीदने को हरी झंडी दी है। इसे देखते हुए दूसरी कंपनी ने भी इतनी ही जमीन की मांग सरकार से की है। माना जा रहा है की जल्दी ही दूसरी कंपनी को भी इसकी इजाजत मिल जाएगी।

वर्मा की मानें तो प्लानिंग के हिसाब से दोनों कंपनियों को सरकार 3700-3700 एकड़ जमीन में हाईटेक सिटी बसाने के लिए इजाजत दे रही है। इस तरह से शहर में हाईटेक सिटी 7400 एकड़ में होगी। दोनों कंपनियां तेजी के साथ जमीन खरीद रही है।

9 लाख लोगों की होगी मकान की टेंशन दूर

जीडीए के मास्टर प्लान पर गौर करें तो दोनों हाई टेक सिटी के बस जाने के बाद करीब नौ लाख लोगों को घर मिलने की संभावना जताई जा रही है। जीडीए के चीफ टाउन प्लैनर जी. एस. गोयल का कहना है कि हाईटेक सिटी सुविधा के मामले में काफी आगे होगा। इसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट भी होंगे। यहां ग्रुप हाउसिंग भी होगा।

इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।

इस आर्टिकल को ट्वीट करें।

Recommend

Be the first of your friends to recommend this.

Powered by Indiatimes

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2011 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768